

इसलिए मेरी मांग है कि सरकार बाबा राघव दास, गोरखपुर मेडिकल कालेज का अपग्रेडेशन प्रथम चरण में करवाए जिससे मरीजों का इलाज प्रभावित न हो मरीज उच्च गुणवत्ता के अस्पताल में इलाज करवा कर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। धन्यवाद।

**Need to transfer Railway Headquarters of
Western Railways to Ahmedabad**

श्री लाल सिंह वडोदिया (गुजरात) : महोदय, ऐसा लगता है कि जब देश में रेलवे के जोनों और उनके मुख्यालयों की स्थापना की गई, तो उस समय लोगों की सुविधाओं और मुख्यालयों की दूरी पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। यही कारण है कि आज मुख्यालयों को बदलने की मांग अनेक स्थानों पर की जा रही है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी इससे अछूता नहीं है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुम्बई में स्थित है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा आते हैं। गुजरात राज्य में बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर और अहमदाबाद डिविजन आती हैं। इससे स्पष्ट है कि पश्चिमी रेलवे में आधे से अधिक डिविजन गुजरात राज्य में स्थित हैं, फिर भी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय गुजरात राज्य में न बनाकर मुम्बई में बनाया गया। इसे किसी भी प्रकार उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इन डिविजनों को मुम्बई न जाना पड़े, इसलिए अहमदाबाद को पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय बनाने की मांग बराबर की जा रही है, क्योंकि गुजरात राज्य में स्थित चारों डिविजनों के मध्य में अहमदाबाद स्थित है। इससे सभी को आने-जाने में सुविधा होगी। मेरे विचार से भी उक्त सभी बातों को देखते हुए पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय-अहमदाबाद में बनाना सर्वथा उचित होगा।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से विशेष अनुरोध है कि जनभावनाओं का आदर करते हुए और लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय अहमदाबाद में बनाने के निर्देश जारी करने की कृपा करें, ताकि जनभावनाओं का सम्मान हो सके और सभी डिविजनों का इसका लाभ मिल सके।

**Need to sanction special funds for construction of additional court buildings,
libraries and canteens in district court premises in Tamil Nadu**

SHRI PAUL MANOJ PANDIAN (Tamil Nadu) : Sir, I wish to bring to the notice of the House that the court buildings in the State of Tamil Nadu need additional infrastructure by way of construction of additional court buildings, chambers for advocates, libraries and canteens for the advocates.

There are a number of District Courts, Magistrate Courts, *Munsif* Courts in the State of Tamil Nadu which need additional facilities and as such special financial assistance is necessary from the Central Government for the purpose of construction of court buildings, chambers for advocates, libraries and canteens for advocates practising in the State of Tamil Nadu.

For example, in the Tirunelveli District Court premises, the advocates do not have chambers to meet their clients and additional buildings for the court and library have become absolutely essential. In the same way, the advocates of all districts in the State of